

August 31, 2022

**BSE Limited** 

Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400001

Scrip Code: 533320

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400051

Symbol: JUBLINDS

#### Sub: Submission of Newspaper advertisements for 16th Annual General Meeting and evoting information

In continuation to our letter dated August 30, 2022, we enclose copies of the advertisements published on August 31, 2022, in Mint (English) and Hindustan (Hindi), with respect to:

- completion of dispatch of Notice of 16th Annual General Meeting and Annual Report for the FY 2021-22; and
- e-Voting information relating to the Annual General Meeting.

This is for information and records.

Thanking you,

Yours faithfully, For Jubilant Industries Limited

Abhishek Mishra **Company Secretary** 

Encl.: a/a

A Jubilant Bhartia Company



www.jubilantindustries.com

Regd Office: Bhartiagram, Gajraula Distt. Amroha-244 223 UP. India CIN: L24100UP2007PLC032909





## MINT SHORTS

#### China sets mid-October start for Congress to extend Xi's rule

The Chinese Communist Party's twice-a-decade leadership congress will begin on 16 October, state media said, bringing President Xi Jinping a step closer to a precedent-defying third term in power. The proposed 20th Party Congress's start date was announced Tuesday after a meeting of the top-decision making Politburo, the official Xinhua News Agency reported. The seventh plenum will be held from 9 October to prepare for the congress, the statement added.

#### Russia says radiation at nuclear plant normal after shelling blitz



Moscow: Russia's Defence Ministry said in a statement on Tuesday that the radiation situation at the **Zaporizhzhia** nuclear power plant remains normal. In its statement, the ministry said that Ukrainian forces had fired two artillery shells into the territory of the nuclear power plant. Reuters could not immediately confirm the reports. Russian troops captured the Zaporizhzhia nuclear plant, Europe's largest, in March.

#### Australia asks Apple, Microsoft, Meta to share anti-abuse steps

Sydney: An Australian regulator sent legal letters to Facebook owner Meta Platforms, Apple Inc and Microsoft Corp demanding they share their strategies for stamping out child abuse material on their platforms or face fines. The e-Safety Commissioner, a body set up to protect internet users, said it used laws which took effect in January to compel the technology giants to disclose measures they were taking to detect and remove abuse material within 28 days. If they did not, the companies would each face a fine of A\$555,000 (\$383,000) per day.

# US prepares \$1.1 bn arms package for Taiwan

China opposes Washington's move, calls it a threat to its security

feedback@livemint.com

he Biden administration is preparing to sell \$1.1 billion in missiles and radar support to Taiwan, according to an official familiar with the matter, in what would be the largest such transfer in

The package would include as much as \$650 million in continued support for a surveillance radar sold earlier, about \$90 million for roughly 100 Sidewinder air-toair missiles as well as about 60 additional anti-ship Harpoon missiles, the official said. Both weapons have been sold to Taiwan previously.

The State Department informally notified Congress of the sale late Monday. Even though it offers Taiwan no new military capability, the move could prompt protests from Beijing, which has said American arms sales to Taiwan are a threat to its security and a violation of the agreements that established diplomatic relations with Washington.

China's Foreign Ministry called on the US to stop arms sales and military contact with Taiwan in a Tuesday statement sent to Bloomberg. "China firmly opposes the US selling arms to China's Taiwan region," it said. "This is consistent and clear."

The planned arms sale was reported by Politico earlier Monday.

The notification marks the beginning of several weeks of staff consultations that will result in a formal arms-sale proposal from the State Department. With support



It would be the largest sale since a \$2.4 bn deal in October 2020.

for Taiwan running high among both Republicans and Democrats in Congress, the package will likely face little resistance from lawmakers.

A separate person familiar with the matter said there have been several conversations between the administration and Congress about arms sales to Taiwan.

A spokesperson for the US National Security Council, who asked not to be identified, declined to respond in detail and said only that the US would continue fulfilling its responsibilities under the Taiwan Relations Act to support Taiwan's self-defense. A State Department spokesperson said, as a matter of policy, that the department does not publicly comment or confirm proposed defense sales until they have been formally notified to Congress. It would be the largest sale since a \$2.4 billion deal including Harpoon missiles in October 2020, and the largest since President Joe Biden took office. The president is facing calls to accelerate American weapon transfers to Taiwan to deter China from acting militarily against the democratically governed island and avoid a

repeat of Russia's invasion of Ukraine. Taiwan last week proposed raising its total spending on the military by almost 14% next year. Earlier this month, House Speaker Nancy Pelosi became the highestranking US official in a quarter century to visit Taiwan, prompting Beijing afterward to conduct military drills and fire missiles over the island for the first time.

## Stocks, futures up as Fed concerns recede

feedback@livemint.com

tocks rose on Tuesday as investor sentiment stabilized following a rout sparked by the Federal Reserve's signal of a sustained period of restrictive monetary policy to quell inflation. Treasury yields and the dollar declined


European stocks and US futures rallied, signaling a break in the equity slump that began Friday when Chair Jerome Powell stressed the Fed is willing to let the economy suffer to cool price pressures. Retailers and banks led the  $gains, while \, energy \, companies \,$ and miners underperformed.

European energy prices plunged on signs that the region is stepping up efforts to curb a crisis that threatens to tip the region into recession with winter approaching. Prices have been extremely volatile in recent days amid thin trading and much uncertainty

Euro-area economic confidence dropped to its lowest level in 1 1/2 years, though Spanish inflation eased for the first time in four months.

The rebound may not last. Credit Suisse Group AG recommended investors go underweight global equities following the Jackson Hole symposium, where central bankers doubled down on their bid to tame inflation through higher interest rates.

Powell's push back against market hopes for a pivot to interest-rate cuts next year is



The markets signalled a break in the slump that began after Fed Chair remark on Friday AP

the latest setback in a challenging year for investors. The Fed this week is also set to step up the unwinding of its near-\$9 trillion balance sheet. Other risks range from China's economic slowdown to Europe's energy crisis as Russia continues war in Ukraine and chokes gas supplies.

"The markets are spooked because they are afraid that the Fed could create a hard landing — that they'll raise rates into a recession and that will be really painful for the economy and for corporate profits," Terri Spath, chief investment officer at Zuma Wealth LLC, said on Bloomberg Television

Minneapolis Fed President Neel Kashkari said sharp stock-market losses show investors have got the message that the US central bank is determined to contain inflation. "People now understand the seriousness of our commit ment to getting inflation back down to 2%," he said.



#### Jubilant Industries Limited

CIN: L24100UP2007PLC032909 Registered Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223, Uttar Pradesh, India Email: investorsjil@jubl.com; Website: www.jubilantindustries.com Phone: +91-5924-267437

## NOTICE OF 16<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting (the 'AGM') of Jubilant Industries Limited ('Company') is scheduled to be held on Wednesday, September 21, 2022 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM'), to transact the business set forth in the Notice dated May 27, 2022, in compliance with the circular dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022, (collectively referred to as the 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide its circular dated May 12, 2020 read with Circulars dated January 15, 2021 and May 13, 2022 (collectively referred to as 'SEBI Circulars'). The members may attend the AGM by following the procedure

In compliance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, the Notice convening the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2021-22 have been sent on August 30, 2022, through electronic mode only to those members whose e-mail addresses are registered with the Company or Depository Participants ('DPs') or Registrar and Transfer Agent ('RTA').

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules') and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations'), the Company is providing electronic voting ('e-Voting') facility to the members to enable them to cast their votes electronically. Accordingly, the items of business set forth in the Notice of AGM may be transacted through e-Voting facility provided by National Securities Depository Limited ('NSDL').

Members are further informed that (a) Remote e-Voting shall commence at 9:00 A.M. (IST) on Sunday, September 18, 2022 and end at 5:00 P.M. (IST) on Tuesday, September 20, 2022; (b) Remote e-Voting shall not be allowed after 5:00 P.M. (IST) on Tuesday, September 20, 2022; (c) No remote e-Voting shall be allowed beyond the aforesaid date and time and remote e-Voting module shall be disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (d) The Cut-off date for the purpose of e-voting has been fixed as Wednesday, September 14, 2022. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the members of the Company as on the Cut-off date; (e) Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the Cut-off date i.e. Wednesday, September 14, 2022, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to the Company (investorsjil@jubl.com) / RTA (rta@alankit.com). However, if any person is already registered with NSDL for remote e-Voting, he can use his existing User ID and Password for casting his vote. If a person has forgotten his Password, he can reset his Password by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL on Toll free no.: 1800-1020-990/1800-224-430; (f) The e-voting facility will also be made available during the AGM to enable the members who have not cast their vote through remote e-voting, to exercise their voting rights; (g) members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend and participate in the AGM through VC/ OAVM means, but shall not be entitled to cast their e-vote again; and (h) the Notice of AGM and the Annual Report have been displayed on the Company's website at link https://www.jubilantindustries.com/pdfs/Annual-Report-2021-22.pdf, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

Process for registration of e-mail id is given below for those shareholders whose e-mail ld is not registered:

- a) In case shares are held in physical mode, please provide folio no., name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by sending e-mail at investorsjil@jubl.com or rta@alankit.com.
- b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to investorsjil@jubl.com or rta@alankit.com.

For e-Voting instructions, members are requested to go through the instructions given in the Notice of AGM. In case of any queries / grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL, Trade World, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013, India through e-mail at evoting@nsdl.co.in or on Toll Free No.: 1800 1020 990 or Mr. J. K. Singla, Deputy General Manager, Alankit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110 055, India through e-mail at rta@alankit.com or on Telephone No.: 011-42541234.

The results of voting on the resolutions set out in the Notice of AGM shall be declared within 2 working days of conclusion of the AGM. The results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company: www.jubilantindustries.com, and on the website of NSDL: www.evoting.nsdl.com, immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorised by him and the results shall also be communicated to the Stock Exchanges.

For Jubilant Industries Limited

**Abhishek Mishra Company Secretary** 



**HT Media Limited** CIN: L22121DL2002PLC117874

Registered Office: Hindustan Times House, 18-20, Kasturba Gandhi Marg,

New Delhi- 110 001 Ph.: +91-11-66561333; Fax: +91-11-66561270 E-mail: investor@hindustantimes.com; website: www.htmedia.ir

NOTICE OF THE 20<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF HT MEDIA LIMITED n furtherance to our notice published in the newspapers viz. Mint (All editions) an Hindustan (New Delhi edition) on August 23, 2022 regarding the 20<sup>th</sup> Annual Genera Meeting ('AGM') of HT Media Limited ('Company' or 'HTML') to be held on **Thursday September 22, 2022** at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing ('VC')/Othe Audio Visual Means ('OAVM'). The venue of the Meeting shall be deemed to be th Registered Office of the Company. The Members of HTML are hereby informed tha electronic copy of the Notice convening the 20th AGM, procedure & instructions for -voting (remote e-voting and e-voting at the AGM i.e. 'InstaPoll') and the Annua Report for FY-22 have been sent on Tuesday, August 30, 2022 to those Member hose email ID are registered with the Company/Depository Participants ('DP') Nembers may download the Notice of 20th AGM. Annual Report for FY-22 and other elevant documents from the website of the Company viz. www.htmedia.in; stock xchanges viz. BSE Limited at <u>www.bseindia.com</u>, National Stock Exchange of India Limited viz. www.nseindia.com and Registrar and Share Transfer Agent i.e (Fin Technologies Limited ('RTA'/ 'KFin') viz. <a href="https://evoting.kfintech.com">https://evoting.kfintech.com</a>. The detailed procedure for attending 20th AGM, voting (remote e-voting and

- nstaPoll) etc. is set out in the notice of AGM, on the following lines: The Company is providing facility to its Members to exercise their right to vote on the business set forth in the Notice of 20th AGM through remote e-voting and InstaPoll. Procedure for e-voting and attending the AGM for members are provided in notice of AGM. KFin has been engaged by the Company for
- providing VC/OAVM platform and e-voting facility. Remote e-voting facility shall commence at 09:00 AM (Server time) on Sunday, September 18, 2022 and will remain open till 05:00 PM (Server time) on Wednesday, September 21, 2022. Thereafter, the remote e-voting facility will be disabled by the KFin and no remote e-voting shall be allowed.
- Members of the Company whose names are recorded in the Register o Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date i.e. Thursday, September 15 2022 only, are entitled for e-voting and to attend the AGM. Once the vote on a resolution is cast by the Member, they shall not be allowed to change it subsequently. Voting rights of the Members shall be in proportion to their holding in the paid-up share capital of the Company as on the Cut-off date.
- Members who have exercised their right to vote through remote e-voting may attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again thereat. If a member cast votes by both remote e-voting and InstaPoll, then voting don through remote e-voting shall prevail.
- In case a person has become a Member of the Company after dispatch of the Notice but on or before the Cut-off date i.e. Thursday, September 15, 2022, or has registered the e-mail address after dispatch of the Notice, such Member may obtain the User ID and Password in the manner outlined in the Notice of

Manner of registering/updating email address:

- Members who hold shares in physical mode and have not registered, updated their e-mail address with the Company, can temporarily register. update the same by clicking on https://ris.kfintech.com/clientservices mobilereg/mobileemailreg.aspx or by writing to KFin, Unit: HT Media Limited, Selenium Building Tower B, Plot No. 31- 32, Financial District, Nanakramguda Serilingampally Mandal, Hyderabad- 500032 or by sending email to einward.ris@kfintech.com.
- Members holding shares in dematerialised mode and have not registered, updated their e-mail address, can register/ update their email address with the Depository Participant(s) where they maintain their dema

Members holding shares in demat form can also use the aforesaid link to registe heir e-mail address or sending email request at <u>einward.ris@kfintech.com</u> för the **imited purpose** of receiving the Notice of 20<sup>th</sup> AGM and Annual Report for FY-22.

- The result will be declared by the Chairman or any other person authorised by him, on or before Saturday, September 24, 2022. The result along with the Scrutinizer's report will be hosted on the Company's website viz. www. htmedia.in and on KFin's website viz. https://evoting.kfintech.com. The resul shall also be intimated to the Stock Exchanges viz. BSE Limited. National Stock Exchange of India Limited, National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited. The Company will also display the result at its Registered Office.
- In case of any query/ grievance, in respect of e-voting, members may refer to the Help & FAQs section/E-voting user manual available at the 'Downloads section of KFin's website: <a href="https://evoting.kfintech.com/public/Downloads">https://evoting.kfintech.com/public/Downloads</a> aspx or contact Mr. Rajkumar Kale, AVP, KFin Technologies Limited, Unit HT Media Limited, Selenium Building Tower B, Plot 31-32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad- 500032, Toll free No. 1800-309-4001 | E-mail: evoting@kfintech.com or may write to the Company Secretary at <a href="mailto:investor@hindustantimes.com">investor@hindustantimes.com</a>. For any technical assistance

Date: August 30, 2022

For HT Media Limited Manhar Kanoo (Group General Counsel & Company Secretary)



**Perfect for** the treadmill. So that your knowledge isn't stuck in the same place.

> Detailed reporting on the most important stories of our times. Great return for your 10 minutes' investment.







August 30, 2022

बुधवार

३१ अगस्त २०२२

# अपना देश

एनसीआरबी की वर्ष 2021 की रिपोर्ट में सामने आई सच्चाई

# यूपी लगभग दंगामुक्त महज एक मामला दर्ज

**लखनऊ, विशेष संवाददाता।** नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश हो गया है। हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी कमी आई है। अन्य राज्यों की तुलना में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं करीब-करीब खत्म हो गई हैं।

्रप्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी में वर्ष 2021 में सांप्रदायिक हिंसा की सिर्फ एक घटना हुई, जबकि अन्य राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा का ग्राफ कहीं ज्यादा ऊपर रहा। सांप्रदायिक हिंसा की झारखंड में 77, बिहार में 51, हरियाणा में 40 घटनाएं सामने आईं। देश में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित रहा। वहां

378 केस मामले दर्ज हुए। वर्ष 2021 में देश में आईपीसी के कुल 36 लाख 63 हजार 360 मामले दर्ज हुए। यूपी में आईपीसी के 3.57 लाख केस दर्ज हुए, जो एक लाख की जनसंख्या पर 154.5 फीसदी है और देश में यूपी 23वें स्थान पर है।

प्रदेश में एसिड अटैक की कुल 22 घटनाएं हुईं और अपहरण की 50

निपटारा

नई दिल्ली, एजेंसी। सप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2002

के गुजरात दंगों के मामले में मंगलवार को

लगभग 20 साल से लंबित सभी याचिकाओं

को बंद कर दिया। साल 2002 से 2004 के

बीच दाखिल कुल 11 याचिकाओं का निपटारा

किया गया। इनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

(एनएचआरसी) द्वारा दायर एक याचिका भी

शामिल है, जिसमें लगभग 20 साल पहले

2002 के गुजरात दंगों के मामलों की स्वतंत्र

सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में विशेष जांच दल

(एसआईटी) का गठन किया था। एसआईटी

की रिपोर्ट के आधार पर दंगे से जुड़े लगभग

सभी मामलों पर निचली अदालत का फैसला

आ चुका है। मंगलवार को याचिकाकर्ताओं ने

मामले पर सुनवाई टली

नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने

मंगलवार को विदेशी बैंकों में जमा कालेधन

की वूसली के लिए कदम उठाने की मांग करने

वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी। याचिका

अधिवक्ता राम जेठमलानी और अन्य की तरफ

न्यायमूर्ति एसए नजीर, न्यायमूर्ति एएस

बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ

से वर्ष 2009 में दाखिल की गई थी।

जांच की मांग की गई थी।

 झारखंड में 77, बिहार में 51 और हिरयाणा में दर्ज हुए 40 मामले देशभर में सांप्रदायिक हिंसा के कुल 378 मामले दर्ज किए गए

#### 56083 मामले प्रदेश में महिलाओं मामले प्रदेश के खिलाफ अपराध के दर्ज हैं

#### महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध घटे

एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत

कमार ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में भी सुधार हुआ है। बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध में प्रदेश 28वें स्थान पर और पाक्सो एक्ट के मामले में 6 .3 क्राइम रेट के साथ 21वें स्थान पर रहा। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में यूपी देश में 16वें स्थान पर है। दुराचार के 2845 मुकदमों के साथ राज्य २३वें स्थान पर रहा ।

: प्रशांत कुमार ने कहा कि लगातार कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर की जा रही कड़ी कार्रवाई का नतीजा है कि राज्य में हत्या के मामलों में लगातार कमी आ रही है। हत्या के राज्य में कुल 3717 अपराध घटित हुए, जिसका क्राइम रेट 1.6 रहा और राज्य 24वें

निपटाराः गुजरात दंगों पर

सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई

विदेशी बैंकों में कालेधन मुंबई के स्टेशनों पर हवा से

### खास-खास बातें

- एक लाख ५३ हजार ५८६ सिपाहियों की भर्ती हुई
- 65568 अराजपत्रित अधिकारियों-कर्मचारियों की प्रोन्नति हुई
- यूपी महिला संबंधी अपराध में सजा दिलाने में प्रथम
- साइबर अपराधियों को सजा दिलाने में प्रथम
- शस्त्रों के जब्त करने में प्रथम अभियुक्तों को सजा दिलाने में पथम
- अपराधियों की गिरफ्तारी के मामले में दूसरे स्थान पर

गश्त बढ़ने और पीआरवी की

घटनाएं हुईं। इन दोनों अपराधों में राज्य

सिक्रयता के चलते चोरी की 36वें स्थान पर है। हत्या के मामले लगातार कम हुए घटनाएं बहुत कम हुईं और राज्य 33वें स्थान पर रहा। वहीं डकैती का रेट .1 फीसदी रहा और प्रदेश 29वें स्थान पर रहा। जबकि लूट की घटनाओं में 25वें स्थान पर है। यही नहीं राज्य पुलिस ने विभिन्न मुकदमों में 129.4 करोड़ रुपये की संपत्ति भी

🔳 पीट ने कहा- इतना वक्त

माना कि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित

रखना जरूरी नहीं है। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भाट और जमशेद पारडीवाला

की पीठ ने मंगलवार को याचिकाकर्ताओं से

पूछा कि क्या अब सुनवाई की जरूरत है ? इस

पर एसआईटी के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील

मुकुल रोहतगी ने कहा कि दंगों के नौ में से

अंठ केस में निचली अदालत फैसला दे चुकी

है। कई लोगों को सजा मिली है। अब उनकी

अपील हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित

है।वकील मुकुल रोहतगी ने जजों को बताया

कि सिर्फ नरोडा गांव से जुड़े मामले में निचली

पानीबनानेकीमशीनेंलगीं

नर्ड दिल्ली. विशेष संवाददाता। रेल मंत्रालय

ने मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर हवा से पीने का

पानी बनाने वाली अनोखी मशीनें लगाई है।

इससे रेल यात्रियों को शुद्ध और ताजा पीने का

पानी मिलेगा। साथ ही रेलवे को मशीन लगाने

के एवज में सालाना 25 लाख रुपये मिलेगा।

पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर देश के अन्य

स्टेशनों पर भी ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी।

अदालत का फैसला आना बाकी है।

का अर्थ नहीं

बीतने के बाद इन पर सुनवाई

# देश में बूस्टर डोज लेने वालों की रफ्तार बेहद धीमी

अमृत महोत्सव के मौके पर सरकार ने पूरे देश में कोरोना रोधी टीके की एहतियाती खराक (बस्टर डोज) मुफ्त में लगाने का ऐलान कर रखा है लेकिन इसे लेने वालों की रफ्तार बेहद धीमी है। अब तक 18-59 आयु वर्ग में सिर्फ 12 फीसदी और 60 से अधिक आयु वर्ग में महज 35 फीसदी लोगों ने एहतियाती खुराक ली है।

. बस अड्रों. मेंटो स्टेशनों से लेकर तमाम स्थानों पर टीका केंद्र खुले हैं लेकिन टीका लगाने वालों की कमी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एहतियाती खराक मफ्त उपलब्ध होने के बावजद **66** उम्रदराज और बीमारियों से पीड़ित लोगों को जुल्द से जल्द एहतियाती खुराक लेनी चाहिए। सभी वयस्क निशुल्क एहतियाती खुराक अवश्य लें।

-**मनसुख मंडाविया**, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार

लोग कम आ रहे हैं। यदि 18 साल से अधिक आबादी को देखें तो करीब 20 फीसदी लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है। यानी पांच में से सिर्फ एक व्यक्ति इसके लिए तैयार हुआ।

#### सार्वजनिक सूचना

(कम्पनी अधिनियम,2013 की धारा 248 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (डी) और कम्पनी (कम्पनी पंजीयक से कम्पनियों के नामों को हटाना ) नियम 2016 के नियम 7 (1) के तृतीय प्रावधान के अनुपालन में )



#### कारपोरेट कार्य मंत्रालय कम्पनी पंजीयक का कार्यालय, उत्तर प्रदेश

37/17, बेस्टकाट बिल्डिंग, दि माल, कानपुर – 208001

संख्याः04/07/एस0टी0के0-5 अ प्रकाशन/ड्राइव-248(1)(d)/2022/1993 दिनांक 30.08.2022 संदर्भ

निम्न विवरण अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 248(1)(d) के अंतर्गत कम्पनी के नामों को हटा देने के मामले में।

1. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कम्पनियों के रजिस्ट्रार को विश्वास करने का उचित कारण है िक कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 248(1)(d) के तहत वो कम्पनियां जिनके नाम लिंक https://www.mca.gov.in/mcafoportal/noticesDetails.do पर सूचीबद्व हैं,

(i) ये कम्पनी, जो कि निगमन के 180 दिन के अन्दर व्यवसाय शुरू करने में विफल रहे हैं और उससे सम्बन्धित फार्म भी दाखिल नहीं किया है।

(ii) इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 180 दिन के अन्दर कारोबार नहीं कर पायी है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आवेदन नहीं किया है और, तदानुसार कम्पनी रजिस्ट्रार, उपरोक्त लिंक पर उल्लिखित कम्पनियों का नाम कम्पनी रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

2. यदि किसी व्यक्ति को कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन के भीतर उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

कम्पनी पंजीयक उत्तर प्रदेश कानपुर



#### जुबिलैंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

फोनः +91-5924-267437

सीआईएन : L24100UP2007PLC032909 पंजीकृत कार्यालयः भारतियाग्राम्, गजरौला, जिला अमरोहा – 244 223, उत्तर प्रदेश ईमेलः investorsjil@jubl.com; वेबसाईटः www.jubilantindustries.com

#### 16वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं ई-वोटिंग जानकारी

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि जुबिलेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ('कम्पनी') की 16वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 को 11:00 बजे पूर्वाह (भारतीय मानक समय) पर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांकित 5 मई, 2020 के साथ पठित परिपत्र दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 एवं 5 मई, 2022 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्रों' के तौर पर संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के परिपत्र दिनांकित 12 मई, 2020 के साथ पठित परिपत्र दिनांकित 15 जनवरी, 2021 एवं 13 मई, 2022 (सामूहिक रूप से 'सेबी परिपत्रों' के तौर पर संदर्भित) के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से. 27 मई. 2022 की सचना में निर्दिष्ट व्यवसायों के सम्पादन हेत आयोजित होना निर्धारित है। सदस्य एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रक्रिया का अनुगमन कर एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं। पूर्वोक्त एमसीए एवं सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की आहूत सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु वार्षिक रिपोर्ट 30 अगस्त, 2022 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केवल उन सदस्यों को भेजी गई हैं जिनका ई–मेल पता कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') अथवा रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के साथ पंजीकृत है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 ('नियम') के नियम 20 एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के विनियम 44 के अनुपालन में, कम्पनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर अपना वोट डालने हेतु सक्षम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ('ई-वोटिंग') की सुविधा प्रदान कर रही है। तदनुसार, एजीएम की सचना में निर्धारित व्यवसाय के मदों का निष्पादन नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') द्वारा प्रदान किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधाओं के माध्यम से किया जा सकता है।

सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि: (क) रिमोट ई-वोटिंग रिववार, 18 सितम्बर, 2022 को प्रात: 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) आरम्भ होगी और मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 को सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी; (ख) रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 को सायं 5:00 बजे के उपरान्त नहीं दी जाएगी; (ग) पूर्वोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाले जाने के पश्चात्, सदस्य को तदनन्तर इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; (घ) ई-वोटिंग के उद्देश्य से कट-ऑफ तिथि बुधवार, 14 सितम्बर, 2022 तय की गई है। वोटिंग के अधिकार का आंकलन कट–ऑफ तिथि के अनुसार कम्पनी के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य पर किया जाएगा; (ङ) कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कम्पनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है एवं कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 14 सितम्बर, 2022 तक शेयरों को प्रतिरक्षित रखता है, <u>evoting@nsdl.co.in</u> अथवा कम्पनी (<u>investorsjil@jubl.com</u>)/आरटीए (<u>rta@alankit.com</u>) को एक अनुरोध भेजकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग हेत् एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल गया हो, तो वह www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "फॉरगॉट युजर डिटेल्स / पासवर्ड" अथवा "फिजिकल युजर रिसेट पासवर्ड" विकल्प का उपयोग करके अथवा एनएसडीएल को टोल फ्री नम्बर 1800 1020 990 / 1800 224 430 पर संपर्क कर अपना पासवर्ड 'रीसेट' कर सकता है; (च) एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा भी उन सदस्यों को अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करने हेतु उपलब्ध होगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला हो; **(छ)** वे सदस्य जिन्होंने अपना वोट एजीएम के पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाल दिया हो, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते एवं भाग ले सकते हैं परन्तु अपना ई-वोट पुनः डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे; (ज) एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट पर https://www.jubilantindustries.com/pdfs/Annual-Report-2021-22.pdf वेबलिंक पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.nseindia.com</u> पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी प्रदर्शित किए गए हैं। उन शेयरधारकों, जिनका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है, ई-मेल पता के पंजीकरण की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

(क) यदि शेयर भौतिक रूप में प्रतिरक्षित हैं, तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे एवं पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन प्रति) <u>investorsjil@jubl.com</u> अथवा <u>rta@alankit.com</u> पर ई–मेल द्वारा भेजें।

(ख) यदि शेयर डीमैट रूप में प्रतिरक्षित हैं, तो कृपया डीपीआईडी-क्लाइंट आईडी (16-अंकीय डीपीआईडी + क्लाइंट आईडी या 16-अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति) <u>investorsjil@jubl.com</u> अथवा <u>rta@alankit.com</u> पर भेजें।

ई—वोटिंग निर्देशों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों को देखें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न / शिकायतों के मामले में, सदस्य <u>www.evoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु 'फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनस'(FAQs) एवं शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा श्री अमित विशाल वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- 400013, भारत से ई-मेल द्वारा **evoting@nsdl.co.in** पर अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 1020 990 या श्री जे. के. सिंगला, उप महाप्रबंधक, मेसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110055, भारत से <u>rta@alankit.com</u> पर ई—मेल के माध्यम से अथवा टेलीफोन नम्बरः 011–42541234 पर संपर्क कर सकते हैं।

एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर वोटिंग के परिणाम एजीएम के समापन के 2 दिनों के अन्दर घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट सहित, कम्पनी की वेबसाइट www.jubilantindustries.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के शीघ्र पश्चात् प्रदर्शित किए जाएंगे और परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को भी संचारित किए जाएंगे।

कृते जुबिलैंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

अभिषेक मिश्रा

अमीषा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर लगी रोक

**नई दिल्ली, एजेंसी।** उच्चतम न्यायालय ने अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात मामले में फौजदारी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। झारखंड की एक अदालत ने इस मामले में अभिनेत्री को समन जारी किए थे। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह की पीठ ने अभिनेत्री की और से दाखिल याचिका पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया।

#### कार्यालय ग्राम पंयायत खैय्या खद्दर, वि.खं. मुरादाबाद

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

ामस्त अधिकृत फर्म, पंजीकृत विक्रेताओं को एतदहारा सुचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत में होने वाले अन्तयेष्टि स्थल, पंचायत भवन निर्माण भागनबाड़ी केन्द्र, सामुदायिक शौचायल, इण्टर लॉकिंग टाईलस, सीसीटाईल्स रोड, नाली, खडंजा, पशु शैड, ओपन जिम, पार्क, बच्चों के लि गोरंजन पार्क, खेल का मैदान, एलईडी स्ट्रीट लाईट, रलीप कार्य, हैण्डपम मरम्मत व खिरो खारी कार्य हेतु ग्राम पंचायत खेव्या खडत, विकास ख गुदाबाद जनपर मुरादाबाद में विनीय वर्ष 2022—2023 हेतु ग्राम पंचायत के ह्या अनुमीदित बिकास योजना विनीय वर्ष 2022—2023 व भनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग/पन्द्रह वित्त/मनरेगा आदि अन्य शासकीय मदों अंतृर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु निर्धारित मानक/गुणवता व ुसार उच्चकोटि की सामग्री निर्माण स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मेहस्बन्द निवदा/कुट्रेशन आमंत्रित की जाती है इच्छुक फर्म एवं आपूर्तिकर्ता दिनां -08-2022 से 06-09-2022 तक कार्यालय दिवस में दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय एवं ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स सीलवंद निविदा कुटेशन दरें सिंहत जमा कर सकते है जो कि दिनांक 06–09–2022 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिन के 2 बजे खोली जायेर्ग स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनग्रशि के अधार पर की जायेगी जो समय समय पर प्राप्त आंवटित धनग्रशि ए आधारित है। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा घटायी, बढ़ायी जा सकती है आवारा है। जायर परातुसार सामग्र का आगूरा ग्राम श्रवान पवायर सावय के आदश रही आपूर्त प्रकाश माना विद्यान, बहुवा आ सामग्री की आपूर्त प्रकाश की की पिछि में स्वीकृत दर पर निर्देश का वेदस्त हो होगी सामग्री आपूर्ति को की पिछि में स्वीकृति के स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकता की जीएसटी रिजस्ट्रेशन संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दर पीडब्लूडी की दरों के अनुरू गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप हो, सामग्री की आपति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है सामग्री क गुणवत्ता के मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में नियमानुसार कटोती की जायेगी। निवदा की विना कारण वता

सामग्री का नाम

7	2	3	·
1	सीमेन्ट	प्रति नग	
2	बजरफुट/मोरंग/बालूरेत	घन मी.	
3	20 एमएम बजरी, 40 एमएम ब्रिक ब्लास्ट	घन मी.	
4	ईंट प्रथम श्रेणी एम 150	प्रति हजार	
5	ईंट प्रथम श्रेणी एम 275	प्रति हजार	
6	सीसी इंटरलॉकिंग टाईल्स 80 एमएम सफेद	प्रति हजार	
7	सीसी इंटरलॉकिंग टाईल्स 80 एमएम रंगी	प्रति हजार	
8	दीवार टाईल्स, फर्श टाईल्स	प्रति वर्ग मी.	
9	सरिया, लोहे का जाल	प्रति कुंटल	
10	ब्रिक ब्लास्ट 22 एमएम से 40 एमएम	प्रति घन मी.	
11	स्टोन ब्लास्ट 22 एमएम से 40 एमएम	प्रति घन मी.	
12	मिट्टी – दूरी सहित, बॉल पेंटिंग	प्रति घन मी.	
13	दीवार पुताई/समोसम 2 कोड	प्रति नग	
14	इंडिया माका हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत उपकरण	प्रति नग	
15	सिनेट्री सामग्री	प्रति नग	
16	बिजली उपकरण/विद्युत मोटर	प्रति कुंतल	
17	लोहे का फैसिंग तार	प्रति कुंतल	
18	आयरन एंगिल/लोहे का गेट/लोहा	प्रति नग	
19	फर्नीचर/बैच/प्याअसीसी बैंच/सीमेंट बैंच	प्रति नग	
20	डस्टबिन/सफाई, किट/ठैली आदि सामग्री	प्रति नग	
21	स्ट्रीट लाईट एलईडी/सोलर लाईट	प्रति मीटर	
22	बारवट वायर	प्रति घन मी.	
23	प्लास्टिक पेंट, पट्टी, समोसम, प्राइमर, लोहा, लकड़ी	प्रति नग	
24	शौचायल शीट	प्रति सर्विग मीटर	
25	पीवीसी पाईप, ह्यूमन पाइप	प्रति नग	
26	वाटर स्टोरेज अंकारनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग	
27	लकड़ी के दरवाजा/प्लाईवटु/प्लाई	प्रति नग	
28	सीमेंट चादर	प्रति नग	
29	स्प्रे मशीन/फॉगिंग मशीन	प्रति नग	
30	कम्प्यूटर /प्रिंटिंग सीसीटीवी कैमरा	प्रति नग	
31	इन्वर्टर बैट्री	प्रति नग	
32	ग्राम पंचायत का बोर्ड	प्रति घन मीटर	
33	सैनिटेशन सामग्री, चिकित्सा सामग्री स्टेशनरी मरम्मत	प्रति नग	

नोटः ग्राम पंचायत की कार्य योजना का विवरण planningonline.gov.in पर उपलब्ध है।

ग्राम पंचायत- खैय्या खद्दर ग्राम पंचायत- खैय्या खहर विकास खण्ड मुरादाबाद विकास खण्ड मुरादाबाद

#### कार्यालय ग्राम पंयायत शाहपुर मुस्तकम, वि.खं. मुरादाबाद

<sup>२०२२-२२</sup> अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्म, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत में होने वाले अन्तयेष्ट स्थल, पंचायत भवन निर्माण ांगनबाडी केन्द्र, सामदायिक शौचायल, इण्टर लॉकिंग टाईलस, सीसीटाईल्स रोड, नाली, खडंजा, पश शैड, ओपन जिम, पार्क, बच्चों के लि जारानांबा करने, पोर्चुनिक साचित्र, इंग्टर लिक्नि प्रदेशने, साताव्यक्ति के जाराने किया है। जाना जिल्ले नाम जिल् मोरोजन पाने , खेल का मैदान, एलईडी स्ट्रीट लाईट, स्लैप कार्य, हैण्डपम मरम्मत व खिसो आदि कार्य हेतु माम पचावत शाहपुर मुस्तकम, विका खण्ड मुरादाबाद जनपद मुरादाबाद में वित्तीय वर्ष 2022—2023 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित विकास योजना वित्तीय वर्ष 2022—2023 अनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग/पन्दह वित्त/मनरेगा आदि अन्य शासकीय मदों अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेत निर्धारित मानक/गणवत्ता : नुसार चचन राज्य ।वत्त आयागपद्रहा वारामनरमा आदि अन्य शासकाथ मदा अतगत ानमाण काथ कराय जान रहा नाचारत मानकरगुणस्ता नुसार उच्चकोटि को सामग्री निर्माण स्थल एर आयुर्ति करने हेतु मोहस्वद्य निविदा/कुटेशन आमंत्रित को जाती है इच्छुक फर्म एवं आपूर्तिकर्ता दिनांट 0–08–2022 से 06–09-2022 तक कार्यालय दिवस में दोषहर 12 बजे तक अशोहस्ताक्षरी के कार्यालय एवं ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलवंद निविदा कुटेशन दरें सिंहत जमा कर सकते हैं जो कि दिनांक 06–09–2022 को अधोहरताक्षरी के समक्ष दिन के 2 बजे खोली जायेगी स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनग्रशि के अधार पर की जायेगी जो समय समय पर प्राप्त आंवटित धनग्रशि प आधारित है। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव के आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा घटायी, बढ़ायी जा सकती है आधारत है। आवस्वरकतानुसार सामग्र का आधार ग्राम प्रधान/पथावर तमयच के आदश पर को जायगा विस्ता को मात्रा वटाया, कुण जा सकता है सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिश्व में स्वीकृत दरपर निर्धारित कार्यच्यल पर करनी होगी। सामग्री आपूर्ति का पूर्वाता अधोहरताक्षरी की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता की जीएसटी रॉजस्ट्रेशन संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पीडब्लूडी की दरों के अनुरूर गुणवत्ता के मात्रक के अनुरूर हो, सामग्री की आपति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य है सामग्री की गुणवत्ता के मात्रक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में नियमानुसार कटौती की जायेगी। निवदा को बिना कारण बतावे निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	मात्रा	7		
1	2	3			
1	सीमेन्ट	प्रति नग			
2	बजरफुट/मोरंग/बालूरेत	घन मी.			
3	20 एमएम बजरी, 40 एमएम ब्रिक ब्लास्ट	घन मी.			
4	ईंट प्रथम श्रेणी एम 150	प्रति हजार			
5	ईंट प्रथम श्रेणी एम 275	प्रति हजार			
6	सीसी इंटरलॉकिंग टाईल्स 80 एमएम सफेद	प्रति हजार			
7	सीसी इंटरलॉकिंग टाईल्स 80 एमएम रंगी	प्रति हजार			
8	दीवार टाईल्स, फर्श टाईल्स	प्रति वर्ग मी.			
9	सरिया, लोहे का जाल	प्रति कुंटल			
10	ब्रिक ब्लास्ट 22 एमएम से 40 एमएम	प्रति घन मी.			
11	स्टोन ब्लास्ट 22 एमएम से 40 एमएम	प्रति घन मी.			
12	मिट्टी – दूरी सहित, बॉल पेंटिंग	प्रति घन मी.			
13	दीवार पुताई/समोसम 2 कोड	प्रति नग			
14	इंडिया माका हैण्डपम्प रिबोर/मरम्मत उपकरण	प्रति नग			
15	सिनेट्री सामग्री	प्रति नग			
16	बिजली उपकरण/विद्युत मोटर	प्रति कुंतल			
17	लोहे का फैसिंग तार	प्रति कुंतल			
18	आयरन एंगिल/लोहे का गेट/लोहा	प्रति नग			
19	फर्नीचर/बैच/प्याअसीसी बैंच/सीमेंट बैंच	प्रति नग			
20	डस्टबिन/सफाई, किट/ठैली आदि सामग्री	प्रति नग			
21	स्ट्रीट लाईट एलईडी/सोलर लाईट	प्रति मीटर			
22	बारवट वायर	प्रति घन मी.			
23	प्लास्टिक पेंट, पट्टी, समोसम, प्राइमर, लोहा, लकड़ी	प्रति नग			
24	शौचायल शीट	प्रति सर्विग मीटर			
25	पीवीसी पाईप, ह्यूमन पाइप	प्रति नग			
26	वाटर स्टोरेज अंकारनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग			
27	लकड़ी के दरवाजा/प्लाईवटु/प्लाई	प्रति नग			
28	सीमेंट चादर	प्रति नग			
29	स्प्रे मशीन/फॉगिंग मशीन	प्रति नग			
30	कम्प्यूटर /प्रिंटिंग सीसीटीवी कैमरा	प्रति नग			
31	इन्वर्टर बैट्री	प्रति नग			
32	ग्राम पंचायत का बोर्ड	प्रति घन मीटर			
33	सैनिटेशन सामग्री, चिकित्सा सामग्री स्टेशनरी मरम्मत	प्रति नग			
The man is the affect of the man feature planning online govin the manual of					

नोटः ग्राम पंचायत की कार्य योजना का विवरण planningonline.gov.in पर उपलब्ध है।

ग्राम पंचायत- शाहपुर मुस्तकम ग्राम पंचायत- शाहपुर मुस्तकम विकास खण्ड मुरादाबाद विकास खण्ड मुरादाबाद

#### ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील की रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक कंपनी ने मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर ओर से समय की मांग करने पर मामला स्थगित कर दिया। जेठमलानी के अलावा, पंजाब के वायुमंडलीय जल उत्पाक यंत्र लगाए हैं। जो वातावरण में मौजूद हवा से पीने का पानी बनाती पूर्व डीजीपी केपीएस गिल सहित पांच अन्य लोगों का भी निधन हो चुका है। लोकसभा के है। उन्होंने बताया कि गत माह जून में मुंबई के दादर, थाने, कुर्ला, घाटकोपर सहित कुल पांच पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप ने याचिका में आरोप लगाया है कि सरकार कालेधन को स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की 15 मशीनें वापस लाने पर कार्रवाई नहीं कर रही है। लगाने का ठेका दिया गया था।

## यूपीए के 40 विधायकों को रांची से रायपुर भेजा गया

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने की आशंका के बीच मंगलवार को यूपीए के लगभग 40 विधायक रांची से राजधानी रायपुर पहुंचे।

छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि झामुमो और कांग्रेस के विधायक विशेष विमान से रायपुर पहुंचे। उन्हें सुरक्षा के साथ बसों में नवा रायपुर स्थित मेफेयर रिसॉर्ट भेजा गया। हालांकि, कांग्रेस नेताओं ने यह नहीं बताया कि विधायकों में कितने झामुमो 👚 निर्वाचन आयोग में याचिका लगाई थी।

🔳 खरीद-फरोख्त से बचाने का

सरकार पर है संकट

और कांग्रेस के हैं व वह यहां कब तक रुकेंगे। स्त्रों ने बताया कि विधायकों को खरीद-फरोख्त के प्रयासों से बचाने के लिए उन्हें रायपुर भेजा गया है। झारखंड के विपक्षी दल भाजपा ने सोरेन के खिलाफ लाभ के पद के मामले में

## विश्लेषण:सुकमा के गढ़ में कमजोर पड़ी नक्सलियों की पकड़

**नर्ड दिल्ली, विशेष संवाददाता।** नक्सल का कोर गढ़ समझे जाने वाले 589 गांव पिछले तीन साल में नक्सल मुक्त ग्राम की सूची में आ गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सुकर्मा के 121 गांवों का नक्सल मुक्त होना है।

यह वही इलाका है, जहां वर्ष 2012 में कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण कर लिया गया था। उन्हें इस शर्त पर छोड़ा गया था कि वे नक्सलियों की मर्जी से काम करेंगे। तब एलेक्स ने कहा था कि सुकमा के 90 फीसदी

इलाकों में नक्सलियों की ह़कूमत चलती है। गृह मंत्रालय का मानना है कि केंद्र और राज्य

सरकार के परस्पर सहयोग से नक्सलियों का गढ़ पुरी तरह ध्वस्त होगा। नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों को शामिल कर बस्तर फाइटर और बस्तरिया बटालियन जैसे प्रयोग को सुरक्षा जानकार नक्सलरोधी रणनीति में अहम मान रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक, सुकमा में ही दिसंबर 2018 तक करीब 350 गांव नक्सल के पूरी तरह प्रभाव में थे।

30 अगस्त 2022

ग्रेटर नोएडा

किया जा रहा है प्रयास

लाभ के पद मामले में हेमंत